

सोयाबीन

[नवम्बर]



इस इस वर्ष, अभी तक सोयाबीन राष्ट्रीय एक्सचेंजों पर अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और अपनी तेजी को बरकरार रखा है। यदि हम साल-दर-साल कीमतों में बदलाव को देखते हैं, तो यह तीसरा वर्ष है, जिसमें इस तिलहन ने मुख्य रूप से घरेलू सोयामील की अधिक कीमत और सोयाबीन के अधिक एमएसपी के कारण 3439 के निचले स्तर से बढ़कर 15% से अधिक का रिटर्न दिया है और पिछले वर्ष के उच्च स्तर 3958 पर पहुंच गया है।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी, अमेरिकी-चीन व्यापार वार्ता में प्रगति के बाद सीबोट में सोयाबीन वायदा की कीमतों में वृद्धि के साथ 16 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गई। हाल ही में, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने चीन के साथ व्यापार युद्ध को समाप्त करने के लिए एक करार के पहले चरण की रूपरेखा तैयार की और टैरिफ में आगामी वृद्धि को निलंबित कर दिया, लेकिन दोनों पक्षों के अधिकारियों ने कहा कि समझौते से पहले सहमत होने के लिए और अधिक कार्य किए जाने की आवश्यकता है। चीन द्वारा अमेरिकी सोयाबीन की खरीद के कारण सोयाबीन की कीमतों को मदद मिली। 3 अक्टूबर, 2019 को समाप्त होने वाली रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी सोयाबीन का चीन को कुल निर्यात 896,000 टन और शेष दुनिया को 3.1 मिलियन टन हुआ है। बकाया बिक्री चीन को 3.9 मिलियन टन और शेष दुनिया को 8.5 मिलियन टन थी।

घरेलू बाजार में, इस साल हम सोयाबीन की कीमतों में तेजी जारी रह सकती हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में औसत से 44% अधिक वर्षा के कारण खरीफ की फसल को नुकसान हुआ है। भारी बारिश ने पौधे का फूल नष्ट हो गया। यूएसडीए के अनुमानों से यह भी पता चलता है कि आपूर्ति कम होने की संभावना है क्योंकि अंतिम स्टॉक कम है।

सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा जारी सोयाबीन खरीफ 2019 की पहली फसल सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार :

- खरीफ 2019 में सोयाबीन का कुल क्षेत्रफल 107.613 लाख हेक्टेयर होने का अनुमान है, जबकि सरकार ने 113.988 लाख हेक्टेयर का अनुमान लगाया है। सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने खरीफ 2018 कुल उत्पादन क्षेत्र 108.396 लाख हेक्टेयर रहने का अनुमान लगाया था।
- वर्ष 2019 में पूरे भारत में सोयाबीन का उत्पादन 89.941 लाख टन (+/- 5%) होने का अनुमान है, जो कि खरीफ 2018 के अंतिम अनुमान की तुलना में 19.391 लाख टन (-17.7%) कम है।
- इस वर्ष मानसून सही समय पर आया और बुवाई 25 जून से 15 जुलाई के बीच हुई है। महाराष्ट्र में कुछ क्षेत्रों में बुवाई जुलाई के अंतिम सप्ताह में की गई थी।
- जल भराव के कारण मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के 15% से 30% निचले इलाकों में फसल बुरी तरह प्रभावित हुई है।
- महाराष्ट्र के लातूर, बीड और ओशमानाबाद में, 30 से 35 दिनों तक बारिश नहीं हुई, जिससे शुरू में नमी कम रही और उत्पादकता प्रभावित हुई।
- मध्य प्रदेश के मंदसौर, नीमच और रतलाम जिलों में भारी वर्षा हुई, जिससे जल भराव के कारण फसल को काफी नुकसान हुआ।
- राजस्थान के बारां, प्रतापगढ़ और झालावाड़ जिलों में भी भारी बारिश के कारण व्यापक क्षति हुई।
- पूरे देश में औसत पैदावार में भारी कमी के कारण इस वर्ष भारत के सोयाबीन उत्पादन में 17.74% की कमी होने की संभावना है।
- सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन (सोपा) ने अपने सर्वेक्षण में कहा कि 2019 में भारत में सोयाबीन का कुल उत्पादन 89.94 लाख टन हो सकता है, जो 2018 के उत्पादन 109.33 लाख टन से 17.74 प्रतिशत कम है।
- वर्तमान फसल कटाई के सीजन में औसत उत्पादकता 836 किलोग्राम/हेक्टेयर रहने का अनुमान है जबकि पिछले सीजन में 1009 किलोग्राम/हेक्टेयर था।
- वर्ष 2019 में मध्यप्रदेश में सोयाबीन का कुल उत्पादन क्षेत्रफल 51.952 लाख हेक्टेयर है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 4.0% कम है। वर्ष 2019 में सोयाबीन का कुल उत्पादन 40.107 लाख टन होने का अनुमान है जो पिछले वर्ष की तुलना में 18.073 लाख टन (-31.1%) कम है।
- महाराष्ट्र में वर्ष 2019 में सोयाबीन का कुल उत्पादन क्षेत्रफल 37.363 लाख हेक्टेयर है जो पिछले वर्ष की तुलना में 0.97 लाख हेक्टेयर (2.70%) अधिक है।
- वर्ष 2019 में सोयाबीन का कुल उत्पादन 36.295 लाख टन होने का अनुमान है जो पिछले वर्ष की तुलना में 1.955 लाख टन (5.70%) अधिक है। वर्ष 2019 में औसत उत्पादकता 971 किलोग्राम/हेक्टेयर रहने का अनुमान है, जबकि वर्ष 2018 के दौरान 944 किलोग्राम/हेक्टेयर था।
- राजस्थान में वर्ष 2019 में सोयाबीन का कुल उत्पादन क्षेत्रफल 9.627 लाख हेक्टेयर है जो पिछले वर्ष की तुलना में 0.410 हेक्टेयर (4.50%) अधिक है। राजस्थान में वर्ष 2019 में सोयाबीन का कुल उत्पादन 6.560 लाख टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 2.386 लाख टन (-26.7%) कम है। वर्ष 2019 में औसत पैदावार 681 किलोग्राम/हेक्टेयर है, जबकि वर्ष 2018 के दौरान 971 किलोग्राम/हेक्टेयर थी।

यू.एस. कृषि विभाग द्वारा दी गई समग्र माँग और आपूर्ति के अनुमानों के अनुसार रिपोर्ट इस प्रकार है:

Oilseed, Soybean India as of October 2019							
Attribute	19/20 Oct'19	Change	19/20 Sep'19	18/19	17/18	16/17	15/16
Area Harvested (1000 HA)	11,000	-	11,000	11,000	10,400	11,183	11,605
Beginning Stocks (1000 MT)	694	-	694	339	880	338	200
Production (1000 MT)	11,000	-	11,000	11,500	8,350	10,992	6,929
MY Imports (1000 MT)	160	-	160	150	166	79	53
Total Supply (1000 MT)	11,854	-	11,854	11,989	9,396	11,409	7,182
MY Exports (1000 MT)	220	-	220	190	217	269	134
Crush (1000 MT)	9,700	-	9,700	9,800	7,700	9,000	5,500
Food Use Dom. Cons. (1000 MT)	454	-	454	440	420	400	360
Feed Waste Dom. Cons. (1000 MT)	880	-	880	865	720	860	850
Total Dom. Cons. (1000 MT)	11,034	-	11,034	11,105	8,840	10,260	6,710
Ending Stocks (1000 MT)	600	-	600	694	339	880	338
Total Distribution (1000 MT)	11,854	-	11,854	11,989	9,396	11,409	7,182
Yield (MT/HA)	1	-	1	1.05	0.80	0.98	0.60

स्रोत: USDA

SUMMARY OF SOYBEAN PRODUCTION ESTIMATE FOR KHARIF 2019

STATES	Area as per SOPA		Yield		Production	
	Lakh Ha.		Kg. per Ha.		Lakh MT.	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
MADHYA PRADESH	54.100	51.952	1075	772	58.180	40.107
MAHARASHTRA	36.390	37.363	944	971	34.340	36.295
RAJASTHAN	9.212	9.627	971	681	8.945	6.560
TELENGANA	1.791	1.783	877	846	1.571	1.508
KARNATAKA	3.190	3.302	911	816	2.906	2.694
CHATTISGADH	1.281	0.742	865	726	1.108	0.539
GUJARAT	1.342	1.003	925	858	1.241	0.861
OTHER STATES	1.090	1.841	955	748	1.041	1.377
G.TOTAL # (+- 5%)	108.396	107.613	1009	836	109.332	89.941

स्रोत: SOPA


SUMMARY OF SOYBEAN PRODUCTION ESTIMATE FOR KHARIF 2019

STATES	Area as per SOPA				Yield				Production			
	Lac Ha.		Variation		Kg per Ha		Variation		Lac MT		Variation	
	2018	2019	Lakh Ha.	%	2018	2019	Kg per Ha	%	2018	2019	Lakh Ha.	%
MADHYA PRADESH	54.100	51.952	-2.15	-4.0%	1075	772	-303	-28.2%	58.180	40.107	-18.073	-31.1%
MAHARASHTRA	36.390	37.363	0.97	2.7%	944	971	28	2.9%	34.340	36.295	1.955	5.7%
RAJASTHAN	9.212	9.627	0.41	4.5%	971	681	-290	-29.8%	8.945	6.560	-2.386	-26.7%
TELENGANA	1.791	1.783	-0.01	-0.4%	877	846	-31	-3.5%	1.571	1.508	-0.062	-4.0%
KARNATAKA	3.190	3.302	0.11	3.5%	911	816	-95	-10.4%	2.906	2.694	-0.212	-7.3%
CHATTISGADH	1.281	0.742	-0.54	-42.1%	865	726	-139	-16.1%	1.108	0.539	-0.569	-51.4%
GUJARAT	1.342	1.003	-0.34	-25.3%	925	858	-67	-7.2%	1.241	0.861	-0.381	-30.7%
OTHER STATES	1.090	1.841	0.75	68.9%	955	748	-207	-21.7%	1.041	1.377	0.336	32.3%
G.TOTAL	108.396	107.613	-0.78	-0.7%	1009	836	-173	-17.1%	109.332	89.941	-19.391	-17.7%

स्रोत: SOPA

फॉरवर्ड कर्व तेजी की दिशा दिखा रहा है और इस तथ्य को प्रकट कर रहा है कि कीमतों में तेजी का रुझान है।

सोयाबीन वायदा का फॉरवर्ड कर्व (NCDEX)



14.10.2019 के अनुसार बंद भाव

स्रोत: NCDEX

पेराई मार्जिन भी बेहतर है।

Crush Margin - Soybean				
Particular			Amount	Realization
Soybean	Rs/Quintal	A	3,653	36530
Ref Soy Oil	Rs/10 Kgs	B	751.25	12983
Soymeal	Rs/Tonnes	C	32,125	26343
Gross Crush Margin (Per Ton)		(B+C)-A		2795

Source: NCDEX


मार्जिन

कारोबारी भी यू.एस. सोयाबीन की फसल पर नजर रख रहे हैं। हाल ही जारी यूएसडीए की रिपोर्ट के अनुसार :

- मुख्य रूप से कम पैदावार के कारण अमेरिकी सोयाबीन का उत्पादन 3.6 बिलियन बुशल होने का अनुमान है जो 83 मिलियन बुशल कम है।
- सोयाबीन की उत्पादकता प्रति एकड़ 46.9 बुशल रहने का अनुमान है जो सितंबर के पूर्वानुमान से 1 बुशल कम है। उत्पादन क्षेत्र कम होकर 75.6 मिलियन एकड़ रह सकता है।
- कम उत्पादन और शुरुआती स्टॉक कम होने के कारण 2019/20 में अमेरिकी सोयाबीन की आपूर्ति 175 मिलियन बुशल कम होकर 4.5 बिलियन बुशल रहने का अनुमान है।
- यू.एस. सोयाबीन की पेराई मामूली वृद्धि के साथ, अमेरिकी सोयाबीन का अंतिक स्टॉक 180 मिलियन बुशल कम होकर 460 मिलियन बुशल अनुमानित हैं।

व्यापार वार्ता में प्रगति की उम्मीद से बाजार के सेंटीमेंट को मदद मिल सकती है। हाल ही में, अमेरिका और चीन एक व्यापार सौदे के पहले चरण के समझौते पर पहुंच गए हैं। यह कहते हुए कि चीन ने अमेरिकी कृषि उत्पादों में 50 बिलियन डॉलर तक खरीदने का वादा किया है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकी किसानों को एक बड़े व्यापार के लिए तैयार होने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। चीन के साथ व्यापार युद्ध को समाप्त करने के लिए एक सौदे के पहले चरण को रेखांकित करते हुए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने शुक्रवार को 40 बिलियन से 50 डॉलर बिलियन की अमेरिकी कृषि वस्तुओं की खरीद करने के लिए सहमत होने पर अपने प्रतिद्वन्द्वियों की सराहना की।

सोयाबीन वायदा का फॉरवर्ड कर्व (CBOT)



14.10.2019 के अनुसार बंद भाव

स्रोत: Barchart

आंशिक समझौते का मतलब है कि अमेरिका 250 अरब डॉलर के आयात पर 25 से 30 प्रतिशत टैरिफ की बढ़ोतरी को टाल देगा। यह 15 अक्टूबर से प्रभावी होने वाला था। इस कदम को स्थगित करना रद्द करने के बराबर नहीं है, और 15 दिसंबर को टैरिफ में बढ़ोतरी की योजना लागू रहेगी है। दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच लगातार बढ़ते टैरिफ का खतरा अभी भी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर मंडरा रहा है

निष्कर्षतः सोयाबीन के लिए कुल मिलाकर बेहतर स्थितियां हैं और यह अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में, हम उपर्युक्त फंडामेंटल कारकों के आधार पर सोयाबीन काउंटर में तेजी देख सकते हैं।



स्रोत: रॉयटर एवं एसएमसी रिसर्च

सोयाबीन जनवरी 2019 से ही डाउनवार्ड स्लोपिंग चैनल में कारोबार कर रहा है, जहां लंबी अवधि में रेजिस्टेंस 3960 पर और लंबी अवधि में सपोर्ट 3460 पर है। ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस से नीचे जाने के बाद कीमतें 3600-3680 के दायरे में स्थिर कारोबार कर रही है, जो एक मजबूत सपोर्ट स्तर हैं। वर्तमान संरचना से पता चलता है कि यदि कीमतें 3680 के रेजिस्टेंस को पार करती है तो कीमतों में जोरदार तेजी देखी जा सकती है। अंतरराष्ट्रीय सोयाबीन की कीमतों में तेज गिरावट ने घरेलू कीमतों पर अतिरिक्त भार डाला है। डाइरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स ने खरीददारी के कुछ शुरुआती संकेत दिए हैं। कमांडिटी चैनल इंडेक्स भी उसी को दर्शाता है। कीमतों में गिरावट पर खरीददारी करनी चाहिए।

Vandana Bharti : AVP - Commodity Research
Subhranil Dey : Sr. Research Analyst (Agro)
Ravinder Kumar : Research Associate

Boardline : 011-30111000 Extn: 625
Boardline : 011-30111000 Extn: 674
Boardline : 011-30111000 Extn: 684

vandanabharti@smcindiaonline.com
subhranildey@smcindiaonline.com
ravinderkumar@smcindiaonline.com

E-mail: smc.care@smcindiaonline.com



Moneywise. Be wise.

Corporate Office:

11/6B, Shanti Chamber,
Pusa Road, New Delhi - 110005
Tel: +91-11-30111000
www.smcindiaonline.com

Mumbai Office:

Lotus Corporate Park, A Wing 401 / 402, 4th Floor,
Graham Firth Steel Compound, Off Western
Express Highway, Jay Coach Signal, Goreagon
(East) Mumbai - 400063
Tel: 91-22-67341600, Fax: 91-22-67341697

Kolkata Office:

18, Rabindra Sarani, Poddar Court, Gate No-4,
5th Floor, Kolkata-700001
Tel.: 033 6612 7000/033 4058 7000
Fax: 033 6612 7004/033 4058 7004

SMC Global Securities Ltd. (hereinafter referred to as "SMC") is regulated by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") and is licensed to carry on the business of broking, depository services and related activities. SMC is a registered member of National Stock Exchange of India Limited, Bombay Stock Exchange Limited, MSEI (Metropolitan Stock Exchange of India Ltd.) and M/s SMC Comtrade Ltd is a registered member of National Commodity and Derivative Exchange Limited and Multi Commodity Exchanges of India and other commodity exchanges in India. SMC is also registered as a Depository Participant with CDSL and NSDL. SMC's other associates are registered as Merchant Bankers, Portfolio Managers, NBFC with SEBI and Reserve Bank of India. It also has registration with AMFI as a Mutual Fund Distributor.

SMC is a SEBI registered Research Analyst having registration number INH100001849. SMC or its associates has not been debarred/ suspended by SEBI or any other regulatory authority for accessing /dealing in securities/commodities market.

The views expressed by the Research Analyst in this Report are based solely on information available publicly available/internal data/ other reliable sources believed to be true. SMC does not represent/ provide any warranty expressly or impliedly to the accuracy, contents or views expressed herein and investors are advised to independently evaluate the market conditions/risks involved before making any investment decision. The research analysts who have prepared this Report hereby certify that the views /opinions expressed in this Report are their personal independent views/opinions in respect of the subject commodity.

DISCLAIMER: This Research Report is for the personal information of the authorized recipient and doesn't construe to be any investment, legal or taxation advice to the investor. It is only for private circulation and use. The Research Report is based upon information that we consider reliable, but we do not represent that it is accurate or complete, and it should not be relied upon as such. No action is solicited on the basis of the contents of this Research Report. The Research Report should not be reproduced or redistributed to any other person(s) in any form without prior written permission of the SMC. The contents of this material are general and are neither comprehensive nor inclusive. Neither SMC nor any of its affiliates, associates, representatives, directors or employees shall be responsible for any loss or damage that may arise to any person due to any action taken on the basis of this Research Report. It does not constitute personal recommendations or take into account the particular investment objectives, financial situations or needs of an individual client or a corporate/s or any entity/s. All investments involve risk and past performance doesn't guarantee future results. The value of, and income from investments may vary because of the changes in the macro and micro factors given at a certain period of time. The person should use his/her own judgment while taking investment decisions.

Please note that SMC its affiliates, Research Analyst, officers, directors, and employees, including persons involved in the preparation or issuance of this Research Report: (a) from time to time, may have long or short positions in, and buy or sell the commodity thereof, mentioned here in or (b) be engaged in any other transaction involving such commodities and earn brokerage or other compensation or act as a market maker in the commodities discussed herein(c) may have any other potential conflict of interest with respect to any recommendation and related information and opinions. All disputes shall be subject to the exclusive jurisdiction of Delhi High court. All disputes shall be subject to the exclusive jurisdiction of Delhi High court.